



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2003/माघ 8, 1924

No. 76]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2003/MAGHA 8, 1924

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2003

का.आ. 94(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का0आ0 123 (अ), तारीख 29 जनवरी, 2002 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड - 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 4 के चेन्नई-रानीपेट खण्ड (27/480 कि.मी. से 86/450 कि.मी. तक) को चार लेन का बनाने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जानी चाहिए ;

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी ।

## अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (27/460 कि.मी. से 86/450 कि.मी. तक) (चेन्नई - रानीपेट खण्ड) पर अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त वर्णन ।

जिला: कांचीपुरम

तालुक : श्रीपेरुमपुदूर

क्रम संख्या	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मी. में	भूस्वामी अथवा अन्य हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सेलवाड़ीमंगलम	15/2बी	निजी	नम	100	139 अनुसुइया पत्नी महालिंगम
		35/2ए2	निजी	नम	27	159. के राजेश्वरी पत्नी पी कमलानाथन
		35/2बी2	निजी	नम	33	159. के राजेश्वरी पत्नी पी कमलानाथन
		35/2बी2	निजी	नम	40	159. के राजेश्वरी पत्नी पी कमलानाथन
		38/3बी2	निजी	नम	76	के राजेश्वरी (1) एम गीता (2)
		50/1बी	निजी	नम	390	153. चिन्नामनी पुत्र लक्ष्मण नादर
		84/2	निजी	नम	376	55. चिथिरा पत्नी थिरुनाकुक्कारसू
		86/2	निजी	नम	400	154. बृहदस्वरन पुत्र थिरुनाकुक्कारसू
		88/2	निजी	नम	300	69. बलरामन पुत्र चिन्नासामी नायकर
		100/2	निजी	नम	80	2. अर्जुनन पुत्र सुब्रया मुदलियार
		103/1ए2	निजी	नम	245	173. आर बी अरुल पुत्र आर बी राजन
		103/1बी2	निजी	नम	8	173. आर वी अरुल पुत्र आर बी राजन
		103/2ए2	निजी	नम	133	173. आर वी अरुल पुत्र आर बी राजन
		103/2बी2	निजी	नम	580	173. आर वी अरुल पुत्र आर बी राजन
		103/3ए2	निजी	नम	200	143. सिवरामन पुत्र सिवसुब्रमणि
		103/3बी2	निजी	नम	42	58. एस ए बजीराबेलू पुत्र अरुमुगम
		43/17बी	निजी	र म स	130	20 चन्द्रिसेकरन पुत्र उलगनाथ ग्रामणि
		190/3बी	निजी	र म स	35	59.. मुनिसामी नादर पुत्र सुब्रया नादर
		190/5बी	निजी	र म स	67	67. वल्लीअम्मल पत्नी अरुमुगम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		190/8	निजी	र म स	80	75. किसतप्पन पुत्र पलनियादी
		190/10बी	निजी	र म स	118	78.. राजगोपाल पुत्र मुनूसामी
		190/11	निजी	र म स	40	88.. इथीराज पुत्र पोन्नूसामी
		190/12	निजी	र म स	35	6.. अरुमुगम पुत्र पोन्नूसामी
		190/15बी	निजी	र म स	66	21. चन्दिराअम्मल
		190/17बी	निजी	र म स	78	60. मुरुगन पुत्र राजमणिकम
		190/19	निजी	र म स	140	90. राममूर्ति पुत्र सुबय्या चेट्टी
		190/20	निजी	र म स	110	125. पुष्पा पत्नी किसतप्पा चेट्टियार
		190/21	निजी	र म स	55	49. कुलसेकरन पुत्र गंगप्पा नायकर
		191/9बी	निजी	र म स	84	61. मुरुगन पुत्र बरदप्पन
		102/1	निजी	र म स	120	62. मुनूसामी पुत्र अरुमुगम
		89/2	निजी	र म स	65	76. किसतप्पा चेट्टियार पुत्र मुरुल्लोसा चेट्टियार
		89/4	निजी	र म स	60	22. चक्रपानी पुत्र बेल्लई नायकर
		89/7	निजी	र म स	100	97. कानथम्मल पत्नी चोक्कालिंगम
		89/9बी	निजी	र म स	116	111. राजा पुत्र चोक्कालिंगम
		89/20बी	निजी	र म स	69	124. थेन्दरालअरासी पत्नी लोगनाथन
		192/3बी	निजी	र म स	32	120. राजालिंगम पुत्र राजापुथिरन
		192/4बी	निजी	र म स	225	121घनलक्ष्मी पत्नी राजालिंगम
		192/5बी	निजी	र म स	93	65. जयलक्ष्मी पत्नी लक्ष्मणसामी
		192/7बी	निजी	र म स	70	89. इथिराज पुत्र रामचन्द्रन
		192/11बी	निजी	र म स	46	91. लोकानायकी पत्नी चोक्कालिंगम
		192/15	निजी	र म स	140	57. श्रीरामलू चेट्टी पुत्र कन्नप्पा चेट्टी
		192/16	निजी	र म स	65	29. पुष्पा पत्नी किसतप्पा चेट्टियार
		192/18	निजी	र म स	90	44. दास चेट्टियार पुत्र मंगूपथी चेट्टियार
		192/19	निजी	र म स	60	79. रामादोष पुत्र मोहन
		192/32	निजी	र म स	200	7. वासुदेवन पुत्र मुरुल्लोसन
2.	चेन्थामंगलम	1/2ए1बी	निजी	शुष्क	540	438. रविन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र रामकुमार गुप्ता
		1/2ए2बी	निजी	शुष्क	60	415. सुसाई राज पुत्र धनसू
		1/2 बी2	निजी	शुष्क	485	127. पधू होम देव पुत्र साधेर पुज हेम देव
		9/1बी2बी	निजी	नम	400	95. बलइया नायडू पुत्र रावेल नायडू
		9/2डी2बी	निजी	नम	200	431. एन डी विक्टर पुत्र धनराज इनइया नायडू

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		9/2एफ 2	निजी	नम	181	119. लूरदम्मल पत्नी डोमनिक
		9/2जी2	निजी	नम	243	199 देवादोष पुत्र मिकेल नायडू
		9/3बी2	निजी	नम	450	183. सेवास्तीन पुत्र थॉमस नायडू
		10/2बी2	निजी	नम	200	203. मिकाल नायडू पुत्र जोजियप्पा नायडू
		10/2सी2	निजी	नम	150	195. थेक्कल अम्मल पत्नी बलइया नायडू
		10/2डी2	निजी	नम	150	190. बैजामिन पुत्र थोरस नायडू
		13/3बी2	निजी	नम	400	232. नागीरेड्डी पुत्र विजय रेड्डी
		15/2	निजी	नम	535	1. परीष प्रीस्ट केथलिक मादा कोइल मन्नयम
		16/2बी2	निजी	नम	200	241. जोसेफ नायडू पुत्र अनथइया नायडू
		23/2बी2	निजी	र म स	80	67. बलइया नायडू पुत्र रागव नायडू
		23/2सी1बी	निजी	र म स	45	68. माइकल नायडू पुत्र बलइया नायडू
		23/2सी2बी	निजी	र म स	45	147. थेरासम्मल पत्नी बलइया नायडू
		23/2सी3बी	निजी	र म स	46	69. लूरदूसामी पुत्र अनथइया नायडू
		23/3ए2ई2	निजी	र म स	91	98. थेरासम्मल पत्नी रासप्पा नायडू एवं अन्य दो
		23/3ए2एफ2	निजी	शुष्क	7	98. रागप्पन नायडू पुत्र जोसेफ नायडू
		23/3बी2बी	निजी	र म स	45	72. माइकल नायडू
		23/4सी2	निजी	शुष्क	215	253. को - आपरेटिव सोसाइटी (1) माइकल नायडू पुत्र जोसेफ नायडू (2)
		23/5ए11बी2	निजी	र म स	68	78. ए जोर्ज
		23/6बी	निजी	शुष्क	389	92. खादर बाचा
		23/7ए2बी	निजी	शुष्क	361	46. जे परमनाथम
		23/7डी2	निजी	शुष्क	763	46. जे परमनाथम
		23/5ए12बी2	निजी	शुष्क	51	10. टी एलफोनीज
		23/5ए13बी2	निजी	शुष्क	16	10. टी एलफोनीज
		23/5ए14ए2	निजी	शुष्क	71	119. पी सिथेरीअम्मल
		23/5ए15बी2	निजी	र म स	71	79. डोमनिक नायडू पुत्र माइकल नायडू
		23/5ए16ए1बी	निजी	र म स	49	77. रक्केल अम्मल पत्नी रयप्पा नायडू

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		23/5ए16बी 2बी	निजी	शुष्क	102	96/ आई बक्किम्मल
		23/5ए18बी	निजी	शुष्क	119	151. अरुल राज पुत्र ज्ञानप्रकाशम
		23/5बी1सी2	निजी	र म स	123	82. रोजमेरी पत्नी बेन्जामिन नायडू
		23/5बी1डी2	निजी	शुष्क	21	के राघवन
		23/5बी1ई2	निजी	शुष्क	211	के राघवन
		23/5बी2बी2	निजी	शुष्क	393	41. ए.रहमत अम्मल
		25/4ए1बी	निजी	शुष्क	75	217. गोपाल नायकर
		25/4ए2ए1बी	निजी	र म स	46	83. इरुदयाराज (1) एन्थेनी (2) पेरिया जोसेफ नायडू(3) अन्थइया नायडू. (4)
		25/4ए2ए2बी	निजी	शुष्क	61	83. इरुदयाराज (1) एन्थेनी (2) पेरिया जोसेफ नायडू(3) अन्थइया नायडू (4)
		25/4ए2बी	निजी	शुष्क	300	217. गोपाल नायकर
		25/3ए2	निजी	शुष्क	61	291. सबरम्मल और 5 अन्य
		25/3बी2	निजी	शुष्क	71	279. सेसलअम्मल
		25/4बी	निजी	शुष्क	300	222. माइकल (1) डोमनिक नायडू
		25/5ए1ए2	निजी	शुष्क	407	65. एम बी मुसतफा पुत्र इब्राहिम
		25/5ए1बी2	निजी	र म स	123	86. कमलअम्मल पत्नी सेल्वारज नादर
		25/5ए2बी	निजी	शुष्क	231	50. रजनीअम्मल
		25/7ए1बी	निजी	र म स	387	87. यशोदम्मल पत्नी बरदरासु
		26/5बी	निजी	रास्ता	214	289. बलइया नायडू(1) देवदोसामी (2) सेवास्तीन (3) अनथइया नायडू (4) जूलियास जोसेफ (5)
		27/2	निजी	शुष्क	397	289. बलइया नायडू(1) देवदोसामी (2) सेवास्तीन (3) अनथइया नायडू (4) जूलियास जोसेफ (5)
		50/3ए2बी2	निजी	नम	293	130. रवि कुमार गरियाली पुत्र कसिका गरियाली
		50/3ए8ए2	निजी	नम	200	201. टी थेरसा
		50/3ए8बी2	निजी	नम	248	296. जे लूरदम्मल
		50/3ए6बी	निजी	नम	676	184. टी सेवास्तीन
		66/1ए1बी	निजी	शुष्क	388	269 धनलक्ष्मी पत्नी अप्पादुरई
		66/1ए2ए2	निजी	र म स	107	136. ए.कमलम्मल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		66/1ए2बी1बी	निजी	शुष्क	94	135. एम जेयरामन
		66/1ए2सी2	निजी	शुष्क	105	20. के कन्नाविरन
		66/1ए2डी2	निजी	र म स	120	134. आर इनवासेकरन
		66/1ए2ई2	निजी	र म स	188	133. जे मुनियन
		74/1बी	निजी	नम	284	275. पी वरदराजन (1) विबुषानम (2) टी कल्याणीअम्मल (3)
		74/2बी1बी	निजी	नम	198	249. आर अनथइया नायडू (1) वलइया नायडू (2)
		74/2सी2	निजी	नम	430	219. पी ए लॉरन्स पुत्र अब्राहम नायडू
		75/1ए3बी	निजी	नम	50	430. एस सीतारमन (1) सेथूरमन (2)
		75/3बी	निजी	नम	50	430. एस सीतारमन (1) सेथूरमन (2)
		76/1ए2	निजी	नम	250	430. एस सीतारमन (1) सेथूरमन (2)
		76/1बी2	निजी	नम	178	173. लूरनिस नायडू पुत्र वलइया नायडू
		76/1सी2	निजी	नम	286	95. वलइया नायडू पुत्र राफियल नायडू
		78/1बी	निजी	शुष्क	143	245. जोसेफिन अम्मल पत्नी अलफोनीज
		79/1बी	निजी	नम	277	234. जोकरी मासा पुत्र राज नायडू
		93/2	निजी	नम	300	3. मिकेल नाथर मादा कोइल देवइस्थानम
		94/1ए2	निजी	नम	400	195. थेक्कल अम्मल पत्नी वलइया नायडू
		96/2	निजी	नम	339	95. वलइया नायडू पुत्र राफेल नायडू
		97/2	निजी	नम	100	433. केसवन पुत्र वी श्रीनिवासन
		98/2	निजी	नम	477	433. केसवन पुत्र वी श्रीनिवासन
		108/1ए2	निजी	मनावर	370	255. अनन्था बाबू पुत्र जे परमानन्थम
		108/1बी2	निजी	मनावर	650	211. जे पी विल्डर्स भूस्वामी परमानन्थम पुत्र जगन्नाथन
		109/1बी	निजी	शुष्क	1094	211. जे पी विल्डर्स भूस्वामी परमानन्थम पुत्र जगन्नाथन
		109/2ए2	निजी	शुष्क	100	211. जे पी विल्डर्स भूस्वामी जगन्नाथन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		109/2बी2	निजी	शुष्क	200	158. जे पी विल्डर्स स्वामी परमानन्थम
		110/1बी	निजी	शुष्क	198	46. जे पी विल्डर्स भूस्वामी परमानन्थम

[ फा. सं. भाराप्र/13012/4(3 डी)/2001-नि.नि. ]

एन. के. सिन्हा, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2003

**S.O. 94(E).— WHEREAS**, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 123(E), dated the 29<sup>th</sup> January, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the lands specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of four-laning of Chennai— Ranipet Section of National Highway No.4 (Km 27/480 to Km 86/450) in the State of Tamil Nadu;

**AND WHEREAS**, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

**NOW**, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the lands specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired on National Highway No.4 (Km27/460 to Km86/450)  
(Chennai – Ranipet Section) in the State of Tamil Nadu

**District: Kanchipuram**

**Taluk: Sriperumpudur**

Sr. No.	Village Name	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mtrs	Name of the Land Owner or Other Interested Persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Selvazhiman galam	15/2B	Private	Wet	100	139. Anusuya w/o Mahalingam
		35/2A2	Private	Wet	27	159. K.Rajeswari w/o P.Kamalanathan
		35/2B2	Private	Wet	33	159. K.Rajeswari w/o P.Kamalanathan
		35/2C2	Private	Wet	40	159. K.Rajeswari w/o P.Kamalanathan
		38/3B2	Private	Wet	76	K.Rajeshwari (1) M.Geetha(2)
		50/1B	Private	Wet	390	153. Chinna mani s/o Lakshmana Nadar
		84/2	Private	Wet	376	55. Chithira w/o Thirunavukkarasu
		86/2	Private	Wet	400	154. Brihadccswaran S/o Thirunavukkarasu
		88/2	Private	Wet	300	69. Balaraman s/o china samy naicker
		100/2	Private	Wet	80	2. Arjunan s/o Subaraya Mudaliyar
		103/1A2	Private	Wet	245	173. R.V.Arul s/o R.V.Rajan
		103/1B2	Private	Wet	8	173. R.V.Arul s/o R.V.Rajan
		103/2A2	Private	Wet	133	173. R.V.Arul s/o R.V.Rajan
		103/2B2	Private	Wet	580	173. R.V.Arul s/o R.V.Rajan
		103/3A2	Private	Wet	200	143. Sivaraman s/o Siva subramani
		103/3B2	Private	Wet	42	58. S.A. Vajiravelu s/o Arumugam
		43/17B	Private	RHS	130	20... Chandira sekaran s/o Ulaganatha Gramani
		190/3B	Private	RHS	35	59.. Munusamy Nadar, S/o Subbiya Nadar
		190/5B	Private	RHS	67	67. Valli ammal w/o Arumugam



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		190/8	Private	RHS	80	75. Kishtappan s/o Palaniyandi
		190/10B	Private	RHS	118	78.. Rajagopal s/o Munusamy
		190/11	Private	RHS	40	88.. Eithiraj s/o Ponnusamy
		190/12	Private	RHS	35	6.. Arumugam s/o Ponnusamy
		190/15B	Private	RHS	66	21. Chandira ammal
		190/17B	Private	RHS	78	60. Murugan s/o Rajamanickam
		190/19	Private	RHS	140	90. Rama murthy s/o subbiah chetti.
		190/20	Private	RHS	110	125. Pushpa w/o Kistappa chettiar
		190/21	Private	RHS	55	49. Kulasekaran s/o Gangappa Naicker
		191/9B	Private	RHS	84	61. Murugan s/o Varadappan
		102/1	Private	RHS	120	62. Munusamy s/o Arumugam
		89/2	Private	RHS	65	76. Kistappa Chettiar s/o Murugesu chettivar
		89/4	Private	RHS	60	22. Chakrapani s/o vellai naicker
		89/7	Private	RHS	100	97. Kanthammal w/o - Chokkalingam
		89/9B	Private	RHS	116	111. Raja S/o Chokalingam
		89/20B	Private	RHS	69	124. Thendral Arasi w/o Loganathan
		192/3B	Private	RHS	32	120. Rajalingam s/o Rajaputhiran
		192/4B	Private	RHS	225	121..Dhanalakshmi w/o Rajalingam
		192/5B	Private	RHS	93	65. Jayalakshmi w/o Lakshmana samy
		192/7B	Private	RHS	70	89. Eithiraj s/o Ramachandran
		192/11B	Private	RHS	46	91. Lokanayaki w/o Chokalingam
		192/15	Private	RHS	140	57. Sriramalu Chetti s/o Kannappa Chetti
		192/16	Private	RHS	65	29. Pushpa w/o Kistapa Chettiar
		192/18	Private	RHS	90	44. Das Chettiar s/o Mangupathi Chettiar
		192/19	Private	RHS	60	79. Ramadoss s/o Mohan
		192/32	Private	RHS	200	7. Vasudevan s/o Murugesan

246-91/03-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Chenthaman galam	1/2A1B	Private	Dry	540	438. Ravinder Kumar Gupta S/o Ram Kumar Gupta
		1/2A2B	Private	Dry	60	415. Susai Raj S/o Dhanusu
		1/2B2	Private	Dry	485	127. Padhu Ilom Dev S/o Sather punj Hem Dev.
		9/1B2B	Private	Wet	400	95. Balaiya Naidu S/o Rabbel Naidu
		9/2D2B	Private	Wet	200	431. N.D.Victar s/o Dhanraj @ Innaiya Naidu
		9/2F2	Private	Wet	181	119. Loordammal W/o Dominik
		9/2G2	Private	Wet	243	199. Devadoss S/o Mikel Naidu
		9/3B2	Private	Wet	450	183. Sebastin S/o Thomas Naidu
		10/2B2	Private	Wet	200	203. Mickal Naidu S/o Jojiappa Naidu
		10/2C2	Private	Wet	150	195. Thekkal Ammal w/o Balaiya Naidu
		10/2D2	Private	Wet	150	190. Benjamin s/o Thoras Naidu
		13/3B2	Private	Wet	400	232. Nagi Reddi S/o Vijaya Reddi
		15/2	Private	Wet	535	1. Parish Priest Catholic Mada Koil Manyam
		16/2B2	Private	Wet	200	241. Joseph Naidu S/o Anthaiya Naidu
		23/2B2	Private	R.H.S	80	67. Balaiya Naidu S/o Ragava Naidu
		23/2C1B	Private	R.H.S	45	68. Maichel Naidu S/o Balaiah Naidu
		23/2C2B	Private	R.H.S	45	147. Therasammal W/o Balaiah Naidu
		23/2C3B	Private	R.H.S	46	69. Loordu Sami S/o Anthaiya Naidu
		23/3A2E2	Private	R.H.S	91	98. Therasammal w/o Rasappa Naidu and two others
		23/3A2F2	Private	Dry	7	98. Ragappan Naidu S/o Joseph Naidu
		23/3B2B	Private	R.H.S	45	72. Maickel Naidu
		23/4C2	Private	Dry	215	253.Co-op Society(1) Maickel Nadu s/o Joseph Naidu(2)
		23/5A11B2	Private	R.H.S	68	78. A.George
		23/6B	Private	Dry	389	92. Khadar Batcha
		23/7A2B	Private	Dry	361	46. J.Paramanatham

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		23/7D2	Private	Dry	763	46. J.Paramanatham
		23/5A12B2	Private	Dry	51	10. T.Alphones
		23/5A13B2	Private	Dry	16	10. T.Alphones
		23/5A14A2	Private	Dry	71	119. P.Sitheri ammal
		23/5A15B2	Private	R.H.S	71	79. Dominic Naidu s/o Maickel Naidu
		23/5A16A1B	Private	R.H.S	49	77. Rakkel Ammal w/o Rayappa Naidu
		23/5A16B2B	Private	Dry	102	96/ I.Bakkimmal
		23/5A18B	Private	Dry	119	151. Arul Raj S/o Gnana Prakasam
		23/5B1C2	Private	R.H.S	123	82. Rose Mery W/o Benjamin Naidu
		23/5B1D2	Private	Dry	21	K.Raghavan
		23/5B1E2	Private	Dry	211	K.Raghavan
		23/5B2B2	Private	Dry	393	41. A.Rahamath ammal
		25/4A1B	Private	Dry	75	217. Gopal Naicker
		25/4A2A1B	Private	R.H.S	46	83. Irudaya Raj(1) Anthony(2) Periya Joseph Naidu(3) Anthaiya Naidu(4)
		25/4A2A2B	Private	Dry	61	83. Irudaya Raj(1) Anthony(2) Periya Joseph Naidu(3) Anthaiya Naidu(4)
		25/4A2B	Private	Dry	300	217. Gopal Naicker
		25/3A2	Private	Dry	61	291. Savarammal and 5 others
		25/3B2	Private	Dry	71	279. Scsalammal
		25/4C	Private	Dry	300	222. Maichel (1) Dominic Naidu
		25/5A1A2	Private	Dry	407	65. M.V.Musthafa S/o Ibrahim
		25/5A1B2	Private	R.H.S	123	86. Kamalammal W/o Selvaraj Nadar
		25/5A2B	Private	Dry	231	50. Rajani ammal
		25/7A1B	Private	R.H.S	387	87. Yasodammal W/o Varadarasu
		26/5B	Private	Pathway	214	289. Balaiya Naidu(1) Devadoss Swamy(2) Sebastin(3) Anthaiya Naidu(4) Juliyas Joseph(5)
		27/2	Private	Dry	397	289. Balaiya Naidu(1) Devadoss Swamy(2) Sebastin(3) Anthaiya Naidu(4) Juliyas Joseph(5)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		50/3A2B2	Private	Wet	293	130. Ravi Kumar Gariyali S/o Kasika Gariyali
		50/3A8A2	Private	Wet	200	201. T.Therasa
		50/3A8B2	Private	Wet	248	296. J.Loordammal
		50/3A6B	Private	Wet	676	184. T.Sebastin
		66/1A1B	Private	Dry	388	269. Dhanalakshmi W/o Appadurai
		66/1A2A2	Private	R.H.S.	107	136. A.Kamalammal
		66/1A2B1B	Private	Dry	94	135. M.Jeyaraman
		66/1A2C2	Private	Dry	105	20. K.Kannabiran
		66/1A2D2	Private	R.H.S.	120	134. R.Inbasekaran
		66/1A2E2	Private	R.H.S.	188	133. J.Muniyan
		74/1B	Private	Wet	284	275. P.Varadarajan(1) Vibushanam(2) T.Kalyani ammal(3)
		74/2B1B	Private	Wet	198	249. R.Anthaiya Naidu(1) Balaiya Naidu(2)
		74/2C2	Private	Wet	430	219. P.A.Lawrans S/o Abraham Naidu
		75/1A3B	Private	Wet	50	430. S.Seetharaman(1) Sethuraman(2)
		75/3B	Private	Wet	50	430. S.Seetharaman(1) Sethuraman(2)
		76/1A2	Private	Wet	250	430. S.Seetharaman(1) Sethuraman(2)
		76/1B2	Private	Wet	178	173. Lurnis Naidu S/o Balaiya Naidu
		76/1C2	Private	Wet	286	95. Balaiya Naidu S/o Raphial Naidu
		78/1B	Private	Dry	143	245. Josephin ammal W/o Aalphones
		79/1B	Private	Wet	277	234. Jakri Massa S/o Raj Naidu
		93/2	Private	Wet	300	3. Mickel Nathar Mada Koil Devasthanam
		94/1A2	Private	Wet	400	195. Thekkalammal W/o Balaiya Naidu
		96/2	Private	Wet	339	95. Balaiya Naidu S/o Raphail Naidu
		97/2	Private	Wet	100	433. Kesavan S/o V.Srinivasan
		98/2	Private	Wet	477	433. Kesavan S/o V.Srinivasan
		108/1A2	Private	Manavar i	370	255. Anantha Babu S/o J.Paramanantham

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		108/1B2	Private	Manavar i	650	211. J.P.Builders owned by Paramanantham S/o Jaganathan
		109/1B	Private	Dry	1094	211. J.P.Builders owned by Paramanantham S/o Jaganathan
		109/2A2	Private	Dry	100	211. J.P.Builders owned by Jaganathan
		109/2B2	Private	Dry	200	158. J.P.Builders owned by Paramanantham
		110/1B	Private	Dry	198	46. J.P.Builders owned by Paramanantham

[F. No. NHAI/13012/4 (3D)/2001-PI]

N. K. SINHA, Director General (Road Development) &amp; Spl. Secy.